

>

Title: Need to given compensation to the families of labour died and injured in Leh-Ladakh.

श्रीमती कमला देवी पटले (जांजगीर-चम्पा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।

मैं सदन का ध्यान लेह में हुई भयंकर प्राकृतिक त्रासदी की ओर दिलाना चाहती हूँ। आपदा की भयावहता इसी से पता लगती है कि लेह में बादल फटने से हवाई अड्डा, स्कूल, दफ्तर एवं गांव के गांव बह गए। कुछ भी नहीं बचा है। हजारों जानें गई हैं। हजारों घायल हैं तथा हजारों लापता हैं। इतनी भयंकर तबाही हुई है कि दूर-दराज के इलाकों में राहतकर्मियों को पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं।

महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के काफी मजदूर वहां कमाने-खाने गए हुए थे। मेरे संसदीय क्षेत्र जांजगीर-चाम्पा जिले के, यानी एक ही जिले के 22 मजदूर मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है। 26 लोग घायल हैं और 44 लोग लापता हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जो मृतक हैं, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, घायलों के इलाज के लिए सरकार धन मुहैया कराए तथा लापता लोगों की खोज कराई जाए और उनकी वहां से छत्तीसगढ़ वापसी की व्यवस्था शासन द्वारा कराई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

MR. CHAIRMAN : The House now stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

-

19.36 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, August 12, 2010, Sravana 21, 1932 (Saka).

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.